

अगाडकी आवरण पृषुठ
इनरासन के परर



लेखक: महमद मररर
तरह ६, ककषर २
भोजपुरी



सति २ कक्षा के बदिधार्थी रहली। दादी से हमेसा कथा सुनत रहली। दादी हमेशा नया कथा सुनावत रहली। कभी बाघ भालु त कभी राजारानी।

एकदनि दादी इनरासनके परीके कथा सुनवली। सतिकाे परकिे कथा बहुते अच्छा लागल। सतिा सोचली परलोग बहुते सुन्दर होइ।



बहुते जादु बाला होइ लोग की खुब सुनदर अच्छा होइ लोग। परलोग कइसे रहेला।
उ लोगके कपडा कइसन होइ।



उ लोग कइसन लउकत होइ।

उ लोग कहाँ होइ कहाँ मली। हमेशा दमिग मे बात चलत रहे। हमनीके बात उलोग
सम्झी कनि?



कबो सोचस हमरा परलोग मली त। सुपरमैन, शक्तीमान आ स्पाइडरमैन। ई
सबके शक्ती मगतीन।



कभो सोचस कचरिड लेखा उडेके। हमेशा सोचत रहलीन।
फेनु सोचली की मदत मागी। तब उनकरा मनमे आइल। भगवान से प्रार्थना करी।



साच मनसे प्रथना कइली।

हे भगवान, हमराके परलोगसे भेट करादी। भगवान उनकर प्रार्थना सुनलेलन।



एकदनि के बात ह। सतिा जब रातके सुतल रहली। त उनकरा घरके उपरसे आवाज
आइल।

सतिा सुनके उठली। आवाज सरिफ सतिाके सुनाइ देवे।



सति छतपर गइली। एकजने उजर कपडा पहनिले रहे। हातमे छडी पकडके खाडा रहे
। सति पुछली तु के हउव। उ कहली हम परहिई।



बोल हमराके काहे खातरि खोजत रहलु। सति कहली अपने के जादु देखेला। परा
सतिके असमान घुमैली। खुब खयिली। सति खुश हो गइली।

शीर्षक पृष्ठ
इनरासन के परि

Image on page Front Cover by Michael Harrar, International
Illustrations: The Art Of Reading 3.0, © 2009 SIL
International. CC-BY-ND 3.0.

Image on page १ by International Illustrations: The Art Of
Reading 3.0, © 2009 SIL International. CC-BY-ND 3.0.

Image on page ३ by © 2019 Curriculum Development Centre
of Nepal.

तहगत, तह ६

This book has been developed under the Enabling Writers
Project with the support of the Curriculum Development
Centre-Ministry of Education, Science and Technology Nepal,
Language Commission- Government of Nepal, Rural
Development Center-Nepal and World Education.

भोजपुरीNepal



<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/> तपाईंले यस रचनालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईंले यस रचनालाई समायोज गर्न वा यसमा आफ्नो तर्फबाट थपथाप गर्न पाउनुहुन्छ।

तपाईंले लेखक, चित्रकार, इत्यादिको प्रतिलिपि अधिकार सूचना र नाम राख्नुपर्छ।

Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation.

USAID shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.

अगाडको आवरण पृष्ठको भक्तिपट्टी

यस पुस्तकको बारेमा: भोजपुरी भाषामा तयार गरिएको यो पुस्तक कक्षा २ मा अध्ययनरत भाइबहनीहरूका लागि हो। यो पुस्तक देवनागरी लिपिका सबै वर्ण र मात्रा सकिसकेका बालबालिकाको स्वतन्त्र पठनका लागि तयार पारिएको हो। पढाइ सीपको विकास गर्नका लागि यस पुस्तकलाई शिक्षकले नयाँ शब्द सिकाउन, नमुना पठन गर्न र बोध शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

The End



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**Australian
Aid**

